

# डिगी रे सरवरीया थारी पाल भजन लिरिक्स



डिगी रे सरवरीया थारी पाल,  
पाळ तो चढो ने निची उतरू,  
उतर तिरा घसीया बाई रा पाव,  
चढ तिरा घस गी चिटु आगली,  
डिगी रे सरवरीया थारी पाळ।bd।

---

गेरी गेरी आम्बलिया री साव,  
जिण पर बेढो एक सुवटो,  
सुआ मारे धरमीयो रो विर,  
देखे नी विरो सा ने आवतो,  
सुवो बेढो उसली री डाल,  
पिछम धरा ने सुवे जोवियो,  
डिगी रे सरवरीया थारी पाळ।bd।

---

झीणी झीणी उडे रे गुलाल,  
जुना गढ रे मारगा,  
रथड़ा रा पड़े रे पड़ाव,  
बेलया रा वाजे छम छम घुघरा,  
राधा जी रो समके सिर,  
ऋण जी रो मोळियो,  
डिगी रे सरवरीया थारी पाळ।bd।

---

उतरी बाई सरवरिये री पाल,  
आडी ने फिर ने पुछीयो,  
कठोड़े रा कहिजो सिरदार,  
कठोड़े रा कहिजो थेतो राजवी,  
मथुरा रा कहिजो सिरदार,  
गोकुल गढा रा मेतो राजवी,  
डिगी रे सरवरीया थारी पाळ।bd।

---

किण रे मेतो आया मिजमान,  
किण रे सिबरत पावणा,  
श्रि रंग जी रे आया मिजमान,  
नरसी भगत रे पावणा,

समस्त भजनों के लिरिक्स और विडियो बिना इन्टरनेट के भी अपने मोबाइल में देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल  
एप्प स्टोर से 'भजन डायरी एप्प' जरूर इनस्टॉल करे। वेबसाइट - <https://www.bhajandiary.com>



कुण विरा करसी थारा कोड,  
किण रा गितडला सुवावणा,  
नेनी बाई करसी म्हाारा कोड,  
उणरा रे गितडला सुवावणा,  
फेरयो हरजी माथे उपर हाथ,  
नेनी ओडाई बाला चुदड़ी,  
डिगी रे सरवरीया थारी पाळ।bd।

डिगी रे सरवरीया थारी पाल,  
पाळ तो चढो ने निची उतरू,  
उतर तिरा घसीया बाई रा पाव,  
चढ तिरा घस गी चिटु आगली,  
डिगी रे सरवरीया थारी पाळ।bd।

गायक – प्रेम गोस्वामी बाड़मेर।

**9799880344**

प्रेषक – श्रवण गोस्वामी।